



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 1977/वैशाख 12, 1899

No. 182]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 1977/VAISAKHA 12, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1977

S.O. 310(E).—In exercise of the powers conferred by section 18-G and 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely:—

- (1) This order may be called the Cement Control (Third Amendment)—Order 1977.
- (2) It shall come into force at once.
2. In the Cement Control Order 1967,—
 - (a) in sub-clause (a) of clause 2, for the words and figures “grey cement of specific surface not less than 3500 cm²/g”, the words “high strength ordinary portland cement”, shall be substituted
 - (b) in clause 8,—
 - (i) in sub-clause (b), for the words “grey cement of specific surface not less than 3500 cm²/g”, the words “high strength ordinary portland cement”, shall be substituted.
 - (ii) for sub clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(c) ordinary portland, cement, portland pozzolana cement, blast furnace slag cement, masonry cement at a price exceeding Rs. 231.65 per metric tonne.”

[No. F. 1-79/76-Cem.]

D. K. SAXENA, Joint Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1977

का० प्रा० 310 (प्र).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम सीमेंट नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1977 है ।

(2) यह चुरन्त प्रवृत्त हो जाएगा ।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में,—

(क) खंड 2 के उपखंड (क) में, “धूसर सीमेंट जिसकी विशिष्ट सतह 3500 सी एम²/मी० से कम न हो” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “उच्च प्रबलता वाली सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड 8 में,—

(i) उपखंड (ख) में, “धूसर सीमेंट जिसकी विशिष्ट सतह 3500 सी एम²/मी० से कम न हो” शब्दों के स्थान पर “उच्च प्रबलता वाली सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) “उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् .—

“(ग) सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, पीटलैंड पोजलाना सीमेंट, धमन भट्टी स्लैग सीमेंट, चिनाई सीमेंट, 221.65 रु० प्रति मी० टन से अधिक मूल्य पर”।

[म० फा० 1-79/76-सीमेंट]

डी० के० सबसेन, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977